



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126]
No. 126]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 2007/माघ 18, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 2007/MAGHA 18, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

का.आ. 142(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के भरुच जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 173.350 कि. मी. से 218.400 कि. मी. तक के भूखण्ड (वडोदरा—सूरत सेक्शन) के निर्माण (छ: लेन का बनाने), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, भरुच को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 173.350 कि.मी. से 218.400 कि.मी. तक (वडोदरा—सूरत खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भरुच	भरुच	(1) पालेज	142 पैकी 1	गैर कृषिगत	जी. आई. डी. सी.	00-23-10
				113	गैर कृषिगत	जी. आई. डी. सी.	00-11-40

1	2	3	4	5	6	7	(8)
				118 पैकी 1	गैर कृषिगत	जी. आई. डी. सी.	00-05-70
				119	गैर कृषिगत	जी. आई. डी. सी.	00-18-40
				117	गैर कृषिगत	जी. आई. डी. सी.	00-06-40
		(2) करगट	203/ब	कृषि	निजी		00-20-90
		(3) बम्बुसर	141	कृषि	निजी		00-06-50
		(4) नबीपुर	625	कृषि	निजी		00-02-10
			612	कृषि	निजी		00-31-95
			613	कृषि	निजी		00-17-20
			618	कृषि	निजी		00-09-15
			621	कृषि	निजी		00-09-98
			524	गैर कृषिगत	निजी		00-01-56
			523	कृषि	निजी		00-13-35
			513	कृषि	निजी		00-03-40
			624	कृषि	निजी		00-39-24
		(5) वडाडला	262	कृषि	निजी		00-18-40
			266	गैर कृषिगत	निजी		00-14-77
			215/ब	गैर कृषिगत	निजी		00-06-12
			216/2	कृषि	निजी		00-15-00
			19/1/1	कृषि	निजी		00-24-45
			19/2/1	कृषि	निजी		00-29-45
			22/1	गैर कृषिगत	निजी		00-72-73
		(6) जाडेश्वर	145/1	कृषि	निजी		00-07-12
			145/3	गैर कृषिगत	निजी		00-10-96
			178/4	गैर कृषिगत	निजी		00-15-60
			146/7	गैर कृषिगत	निजी		00-03-72
			144/पैकी/ 3/2	गैर कृषिगत	निजी		00-06-29
			144/3/1/ ब	गैर कृषिगत	निजी		00-03-60
			144/3/1/ अ	गैर कृषिगत	निजी		00-02-08
			99/3	गैर	जी. एन. एफ. सी.		00-06-46
			(144/2)	कृषिगत	निजी		00-09-36
			180/9	कृषि	निजी		00-09-36

[फा. सं. भारताप्रा/पीआईयू-वडोदरा/10/भू. अधि.-221]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th February, 2007

S.O. 142 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (six-laning), maintenance, management and operation of National Highway No. 8, on the stretch of land from Km. 173.350 to Km. 218.400 (Vadodara—Surat Section) in District Bharuch in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special Land Acquisition Officer, Bharuch, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 173.350 to Km 218.400 (Vadodara—Surat Section) of the National Highway No. 8 in the State of Gujarat

Serial No.	Name of the District	Name of the Taluka	Name of the Village	Block/Survey Number	Type of land	Nature of land	Area (in Hactares)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bharuch	Bharuch	(1) Palej	142 Paiki 1	Non Agriculture	G. I.D. C	00-23-10
				113	Non Agriculture	G. I.D. C	00-11-40
				118 Paiki 1	Non Agriculture	G. I.D. C	00-05-70
				119	Non Agriculture	G. I.D. C	00-18-07
				117	Non Agriculture	G. I.D. C	00-06-40
			(2) Kargat	203/B	Agriculture	Private	00-20-90
			(3) Bambusar	141	Agriculture	Private	00-06-50
			(4) Nabipur	625	Agriculture	Private	00-02-10
				612	Agriculture	Private	00-31-95
				613	Agriculture	Private	00-17-20
				618	Agriculture	Private	00-09-15
				621	Agriculture	Private	00-09-98
				524	Non Agriculture	Private	00-01-56
				523	Agriculture	Private	00-13-35
				513	Agriculture	Private	00-03-40
				624	Agriculture	Private	00-39-24

1	2	3	4	5	6	7	8
			(5) Vadadla	262	Agriculture	Private	00-18-40
				266	Non Agriculture	Private	00-14-77
				215/B	Non Agriculture	Private	00-06-12
				216/2	Agriculture	Private	00-15-00
				19/1/1	Agriculture	Private	00-24-45
				19/2/1	Agriculture	Private	00-29-45
				22/1	Non Agriculture	Private	00-72-73
			(6) Zadeshwar	145/1	Agriculture	Private	00-07-12
				145/3	Non Agriculture	Private	00-10-96
				178/4	Non Agriculture	Private	00-15-60
				146/7	Non Agriculture	Private	00-03-72
				144/Paiki3/2	Non Agriculture	Private	00-06-29
				144/3/1/B	Non Agriculture	Private	00-03-60
				144/3/1/A	Non Agriculture	Private	00-02-08
				99/3(144/2)	Non Agriculture	G.N.F.C	00-06-46
				180/9	Agriculture	Private	00-09-36

[F. No. NHAI/PIU-Vadodara/10/LA-221]

PRABHAKAR, Dy. Secy.